

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

दिनांक : 06.06.2017

कार्यालय जापन

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी एवं लेखाकार के एक-एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में निम्नलिखित पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने हैं। इन पदों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य ब्यारे क्रमशः अनुबंध-1 एवं अनुबंध -11 में दिए गए हैं। इन पदों पर चयनित अधिकारी का वेतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून 2010 के कार्यालय जापन संख्या 6/8/2009-स्था(वेतन-2), समय समय पर यथासंशोधित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

क्र.स.	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	लेखा अधिकारी (राजपत्रित समूह 'ख')	वेतनमान लेवल - 7, ₹.44900-142400 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, रुपये 9300-34,800 जमा ₹.4600 ग्रेड वेतन)	01
2.	लेखाकार (अराजपत्रित समूह 'ख')	वेतनमान लेवल - 6, ₹.35400-112400 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, रुपये 9300-34,800 जमा ₹.4200 ग्रेड वेतन)	01

2. उपरोक्त पदों के लिए योग्य, इच्छुक एवं पात्र कार्मिकों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन पत्र (दो प्रतियाँ में), संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-प111) में, इस कार्यालय जापन के जारी होने या इस कार्यालय जापन के इम्प्लायमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर, जो भी स्थिति बाद में हो, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अचोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेज दें:-

- आवेदक की पिछले पाँच वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट की समूह 'क' राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रति।
- सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।
- अधिकारी के विरुद्ध कोई अनुशासनिक/सर्तकता का मामला लंबित न हो तथा न ही इस प्रकार का कोई मामला चलाए जाने का विचार है, का प्रमाण-पत्र।
- अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यदि कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई गई हो, का विवरण।
- आवेदक के संबंध में संवर्ग अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

सातवां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन (पर्यावरण भवन), केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
7th Floor, Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan (Paryavaran Bhawan), C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003.

दूरभाष / Telephone : 011-24364119, टेलीफैक्स / Telefax : 011-24365089

ईमेल/e-mail : dirchti-dol@nic.in/वेबसाइट/Website : www.chti.rajbhasha.gov.in.

3. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या जिनके साथ वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां नहीं होंगी या संबंधित कार्यालय की संस्तुति के बिना प्राप्त होंगे या अन्यथा अपूर्ण होंगे, उन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी आवेदन करेंगे, उन्हें अपना आवेदन पत्र बाद में वापिस लेने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र अद्योषित करते समय इस बात की जांच एवं पुष्टि कर ली जाए कि अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। इस बात की भी पुष्टि कर दी जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को उसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।


(प्रभात कुमार सिंह)

प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. भारत का निर्वाचन आयोग।
3. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
4. संघ लोक सेवा आयोग।
5. केंद्रीय सर्तकता आयोग।
6. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. गार्ड फाइल।

1.	पद का नाम	लेखा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित
4.	वेतनमान	वेतनमान लेवल - 7, रु.444900-142400 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-2, रुपये 9300-34,800 जमा रु.4600 ग्रेड वेतन)
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है, साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	पात्रता	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालय या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतनमान लेवल - 6 रु.354000-112400 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 9300-34800 जमा ग्रेड वेतन रु.4200) या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री (ii) केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा पास हो; या सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या समतुल्य में रोकड़ और लेखा में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। (iii) रोकड़, लेखा व बजट कार्य में 3 वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए</p>

1.	पद का नाम	लेखाकार
2.	पदों की संख्या	01 (एक)
3.	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित
4.	वेतनमान	लेवल - 6, रु.35400-112400 (पूर्व संशोधित पीबी-2 रुपये 9300-34,800 जमा रु.4200 ग्रेड वेतन)
5.	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी शामिल है। साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6.	पात्रता	<p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकायों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसा अधिकारी:-</p> <p>(क)(1) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(II) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतनमान लेवल - 5 में (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-1, रु.5200-20200 जमा ग्रेड वेतन रु.2800) या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां छह वर्ष की नियमित सेवा हैं; या</p> <p>(III) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतनमान लेवल -4(पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-1 5200-20200 जमा ग्रेड वेतन रु.2400) या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहां आठ वर्ष की नियमित सेवा हैं; और</p> <p>(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से रोकड़ और लेखा में या समतुल्य पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का 2 वर्ष का अनुभव रखते हैं; या केंद्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अर्धानस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा पास हो।</p> <p>टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से, जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से</p>

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली में लेखा अधिकारी/लेखाकार पद के लिए आवेदन पत्र

1	नाम और पता (साफ अक्षरों में) दूरभाष व ईमेल सहित	
2	पद जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं।	
3	जन्म तिथि (ईस्वी सन में)	
4	केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अधीन सेवानिवृत्ति की तारीख	
5	शैक्षिक योग्यताएं	
6	क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यताएं पूरी करते हैं, यदि किसी योग्यता को नियमों में उल्लिखित योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकार का उल्लेख करें	
अपेक्षित अर्हता/अनुभव		अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
(i)		
(ii)		
(iii)		
7	कृपया सुस्पष्ट करें कि आपके द्वारा ऊपर दी गई प्रवृत्तियों के अनुसार आप पद की अपेक्षाएं पूरी करते हैं	
8	अपने रोजगार का क्रमवार विवरण दें। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित अलग से कामज संलग्न करें:-	

कार्यालय/ संस्थान/ संगठन	धारित पद व संबंधित सेवा संवर्ग	से	तक	बैतनमान तथा पद का वर्गीकरण (समूह) और मूल बैतन	नियुक्ति का स्वरूप (अर्थात् तदर्थ/प्रति नियुक्ति नियमित)	कार्य का स्वरूप
1	2	3	4	5	6	7

9. वर्तमान धारित पद का स्वरूप

- (i) तदर्थ
- (ii) नियमित/ अस्थाई
- (iii) स्थाई/अर्द्ध स्थाई

10. यदि वर्तमान पद प्रतिनियुक्ति/अनुबंध के आधार पर है तो कृपया यह बताएं:-

- (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
- (ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि -
- (ग) कार्यालय संगठन का नाम जिससे आपका मूल संबंध है:-

11.	वर्तमान नियुक्ति से संबंधित अतिरिक्त विवरण, कृपया बताएं (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12.	कृपया बताएं कि आप इसी विभाग में कार्यरत हैं तथा फीडर ग्रेड में हैं या फीडर से फीडर ग्रेड में हैं।	
13.	क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां तो वेतन संशोधित होने की तारीख और पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
14.	प्रतिमाह प्राप्त कुल परिवर्धियां	
15.	अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहें। इनमें से कुछ विषयों पर सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है:- (I) अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं (III) उपरोक्त रिक्त पद के लिए निर्धारित परिपत्र/विज्ञापन के अनुसार कार्य अनुभव (नोट:- यदि स्थान पर्याप्त नहीं है तो एक शीट अलग से संलग्न की जा सकती है।	
16.	क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं।	
<p>मैं उपरोक्त पद के लिए दिए गए परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक देखा है। मेरे द्वारा दिया गया आत्म वृत्त विवरण तथा संबंधित प्रलेखों के बारे में, मैं पूरी तरह की जानकारी रखता हूँ तथा चयन के समय चयन समिति द्वारा इनका मूल्यांकन भी किया जाएगा</p>		

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता:

दूरभाष नं०

तारीख

5

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए
नियोक्ता /कार्यालय अध्यक्ष/प्रेषण अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी द्वारा अपने आवेदन पत्र (अनुबंध-III) में शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव के संबंध में दिए गए विवरण सही हैं ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि कि इनके विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक/सतर्कता संबंधी मामला न तो लंबित है और न ही किसी मामले पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इनकी सत्यनिष्ठा असंदिग्ध है ।
4. श्री/श्रीमती/सुश्री की अपेक्षित गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट की सत्यापित प्रतियां संलग्न हैं ।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
दूरभाष

स्थान
दिनांक